



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 284]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 1978/आश्विन 6, 1900

No. 284]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1978/ASVINA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1978

सा. का. नि. 475(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधि-
नियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (2) और
(3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत
सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 63 (असा)
नियम, 1925 (1925 का अधिनियम 8) की धारा 146 द्वारा प्रकृत
तारीख 3 फरवरी, 1978 द्वारा यथा-उपान्तरित सिख गुरुद्वारा अधि-
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम,
1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती
हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम
सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन (द्वितीय संशोधन) नियम, 1978
हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम, 1959 में, नियम 6
में :—

- (1) उपनियम (2) में “प्रत्येक हाकघर पर” शब्दों का लोप
किया जाएगा,
- (2) परन्तु में, “न ही संघित क्षेत्र के किसी हाक घर में,
जिसके द्वारा कोई भी मतदाता निवासी के रूप में रजिस्ट्री-
कृत नहीं किया गया है।” शब्दों का लोप किया जाएगा,
- (3) परन्तु के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तु और अन्तःस्था-
पित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि उपायुक्त के कार्यालय से प्रकाशित
नामावली केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं हों
जाएगी कि उसमें निर्वाचन क्षेत्र के किसी ऐसे भाग या
भागों की नामावली सम्मिलित नहीं है जो जलवायु
संबंधी कारणों से या अन्यथा अगम्य हो गए हों।”

[सं. एल-13013/5/78-एस. आर.]

भाल चन्द्र देशमुख, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1978

G.S.R. 475(E).—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925), as modified by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 63(E) dated the 3rd February, 1978, issued under sub-section (1), read with sub-sections (2) and (3), of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959 namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sikh Gurdwaras Board Election (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. In the Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959, in rule 6,—

- (i) in sub-rule (2), the words “at every post office”, shall be omitted;
- (ii) in the proviso, the words “nor at any post office in the area served by which no voter has been registered as a resident” shall be omitted;
- (iii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

“Provided further that the roll published at the office of the Deputy Commissioner shall not be rendered invalid on the ground merely that it does not contain the roll in relation to any part or parts of a constituency which have become inaccessible due to climatic conditions or otherwise.”.

[No. S-13013/5/78-SR]

B. G. DESHMUKH, Addl. Secy.